



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) (संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भंडारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के परिशष्ट 2, में “एकल संवर्ग शीर्षक” के अन्तर्गत स्तंभ 1 में क्रमांक सं. 1 मुख्य सर्तकता अधिकारी एवं स्तंभ सं. 2 से 11 में उनसे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

| पद का नाम | वर्गीकरण | पदों की सं. | वेतनमान | चयन या अचयन पद | भर्ती की पद्धति |
|-------------------------|----------|-------------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 मुख्य सर्तकता अधिकारी | समूह ‘क’ | 1 | 75000-1,00,000/- रु. (औद्योगिक महंगाई भत्ता) | चयन | प्रतिनियुक्ति |

| प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में किस तरह पद भरा जाना है | सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित अहर्ताएं | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | क्या आयु सीमा एवं अन्य अहर्ताएं प्रोन्नति पर लागू होंगी | टिप्पणियां |
|--|--|-------------------------------|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधिकारी : (I) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों अथवा (II) 37,400-67,000/- रु. के वेतन बैंड में 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन किया जाए । |

ए. के. शर्मा, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./103/(01)]

टिप्पणः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या-सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था., तारीख 28 फरवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती, तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 15.10.1990
9. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.05.1991
14. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.04.1996

22. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.02.2011
35. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 17.01.2014
36. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 11.04.2014
37. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 28.10.2014
38. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 21.09.2015
39. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती तारीख 30.11.2015

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2015

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment, Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II, under the heading “ISOLATED CADRE”, in column 1 for serial number 1 relating to the post of Chief Vigilance Officer and the entries relating thereto in columns 2 to 11, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

| Sl. No. | Name of Post | Classification | No. of posts | Scale of Pay | Whether selection or non-selection post | Method of recruitment |
|---------|-------------------------|----------------|--------------|--|---|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| “1 | Chief Vigilance Officer | Group A | 1 | Rs. 75,000—1,00,000 (Industrial Dearness Allowance). | Selection | Deputation |

| In case of recruitment by promotion or deputation, posts from which to be made. | Educational & other Qualification required for direct recruitment | Age-limit for direct recruitment | Whether age-limit and other qualifications will apply to promotees | Remarks |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Officers of the Central Government or Central Public Sector Undertakings,- (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) In the pay band of Rs. 37,400—67,000 with grade pay of Rs. 10,000 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Guidelines of Department of Personnel and Training and Central Vigilance Commission regarding appointment of Chief Vigilance Officers shall be followed". |

A. K. SHARMA, General Manager (Personnel)

[ADVT-III/4/Exty./103/(01)]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended vide following notification numbers :-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005
29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006

31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014
38. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st September, 2015
39. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th September, 2015